

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त 2014—श्रावण 28, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014

फा. क्र. 17(ई) 173-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला आगर मालवा, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 166 आगर (अजा) हेतु विधान सभा उप निर्वाचन 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित 5 अधिकारियों को दिनांक 21 अगस्त 2014 से दिनांक 25 अगस्त 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

#### विधान सभा क्षेत्र 166 आगर (अजा)

1. श्री योगेन्द्र गर्ग, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर मालवा—9479849975
2. श्री एन. एस. भाटी, आडिट आफिसर सहकारिता कार्या, उप संचालक, सहकारिता आगर—8989449430
3. श्री मुकेश भटनागर, व. स. नि. धरोला—9981327278
4. श्री एस. के. मालवीय, पीआईयू. पीडब्ल्यूडी, आगर—9826829286
5. डॉ. राहुल सिंह तोमर, पशु औषधालय—9926239277